



# Ancient Vedic Mantras and Rituals





## Maa Durga Chalisa | माँ दुर्गा चालीसा | PDF

नमो नमो दुर्गे सुख करनी।

नमो नमो अम्बे दुख हरनी ॥

**अर्थ-** सुख प्रदान करने वाली हे दुर्गा मां, मेरा नमस्कार स्वीकार करें और मेरे सभी दुखों को हर लें।

निराकार है ज्योति तुम्हारी।

तिहूँ लोक फैली उजियारी ॥

**अर्थ-** माँ आपकी ज्योति का प्रकाश अनंत है और इस प्रकाश से पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों ही लोकों में उजाला छाया हुआ है।

शशि ललाट मुख महाविशाला।

नेत्र लाल भृकुटि विकराला ॥

**अर्थ-** हे माता, आपका मुख इतना विशाल है और चंद्रमा के समान चमकदार है, वहीं आपकी आंखें लाल और भौं बहुत ही विकराल हैं।



**रूप मातु को अधिक सुहावे।  
दरश करत जन अति सुख पावे ॥**

**अर्थ-** हे माँ दुर्गा आपका स्वरूप बहुत ही सुंदर है, जिसे बार-बार देखते ही रहने का मन करता है। आपके मुख के दर्शन पाकर भक्त जनों को परम सुख की प्राप्ति होती है।

**तुम संसार शक्ति लय कीना।  
पालन हेतु अन्न धन दीना ॥**

**अर्थ-** संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, वह सभी आप में समाहित हैं। इस जगत को चलाने वाली और अपने बच्चों का पालन करने वाली, हे मां दुर्गा! आप ही हमें अन्न और धन प्रदान करती हैं।

**अन्नपूर्णा हुई जग पाला।  
तुम ही आदि सुन्दरी बाला ॥**

**अर्थ-** हे देवी! आप ही अन्नपूर्णा माता हैं, इस जगत की पालन करता भी आप ही हैं। इस जगत में सबसे खूबसूरत छवि किसी की है, तो वह आपकी ही है।

**प्रलयकाल सब नाशन हारी।  
तुम गौरी शिवशंकर प्यारी ॥**

**अर्थ-** जब विश्व में घोर अपराध बढ़ जाता है, तो आप ही प्रलय लाती हैं। महादेव भगवान शिव की प्रिय गौरी यानि पार्वती भी आप ही हैं।



**प्रलयकाल सब नाशन हारी।  
तुम गौरी शिवशंकर प्यारी॥**

**अर्थ-** जब विश्व में घोर अपराध बढ़ जाता है, तो आप ही प्रलय लाती हैं। महादेव भगवान शिव की प्रिय गौरी यानि पार्वती भी आप ही हैं।

**शिव योगी तुम्हरे गुण गावें।  
ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावें॥**

**अर्थ-** भगवान शिव सहित ब्रह्मा, विष्णु और सभी योगी आपका गुणगान और ध्यान करते हैं।

**रूप सरस्वती को तुम धारा।  
दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा॥**

**अर्थ-** आप ही माता सरस्वती हैं, आपने ही अपनी शक्ति से सभी ऋषि-मुनियों को सद्बुद्धि दी है और उनका उद्धार किया है।

**धरा रूप नरसिंह को अम्बा।  
प्रकट हुई फाड़कर खम्बा॥**

**अर्थ-** श्री हरि भक्त प्रहलाद को उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए, आपने ही श्री नरसिंह का रूप धारण किया था और खंबा फाड़ कर आप प्रकट हो गई थीं।

**लक्ष्मी रूप धरो जग माहीं।  
श्री नारायण अंग समाहीं॥**

**अर्थ-** लक्ष्मी का रूप धारण करके आप ही श्री हरि विष्णु के साथ उनकी संगी के रूप में मौजूद हैं।



**क्षीरसिन्धु में करत विलासा ।  
दयासिन्धु दीजै मन आसा ॥**

**अर्थ-** क्षीरसागर में भगवान विष्णु के साथ दया की मूर्ति के रूप में आप ही विराजमान हैं और अपने सभी भक्तों पर वहां से कृपा बरसाती रहती हैं।

**हिंगलाज में तुम्हीं भवानी ।  
महिमा अमित न जात बखानी ॥**

**अर्थ-** हिंगलाज की भी देवी आप ही हैं और आपकी महिमा अनंत है, जिसका बखान तीनों लोक में होता है।

**मातंगी धूमावती माता ।  
भुवनेश्वरी बगला सुखदाता ॥**

**अर्थ-** हे देवी! आपके एक नहीं अनेक स्वरूप हैं और आप ही मातंगी देवी, धूमावती, भुवनेश्वरी और बगलामुखी माता हैं। आपके यह सभी रूप सुख प्रदान करते हैं।

**श्री भैरव तारा जग तारिणि ।  
छिन्न भाल भव दुःख निवारिणि ॥**

**अर्थ-** आप भैरव और तारादेवी के रूप में इस जगत का उद्धार कर रही हैं, वहीं छिन्नमस्तिका देवी के रूप में आप सभी भक्तों के दुख और कष्टों को हर लेती हैं।

**केहरि वाहन सोह भवानी ।  
लांगुर वीर चलत अगवानी ॥**

**अर्थ-** हे माता! आपकी सवारी सिंह है और स्वयं हनुमान जी (हनुमान जी की पूजा ऐसे करें) जैसे वीर आपकी सेवा में हर वक्त मौजूद रहते हैं।



कर में खप्पर खड्ग विराजे।  
जाको देख काल डर भाजे॥

**अर्थ-** देवी दुर्गा के हाथों में जब काल रूपी खप्पर होता है, तो उसे देख कर स्वयं काल भी भयभीत हो जाता है।

सोहै अस्त्र और त्रिशूला।  
जाते उठत शत्रु हिय शूला॥

**अर्थ-** हाथों में त्रिशूल जैसे शक्तिशाली शस्त्र को धारण करने वाली मां दुर्गा को देख कर शत्रुओं का हृदय तक कांप उठता है।

नगरकोट में तुम्हीं विराजत।  
तिहूं लोक में डंका बाजत॥

**अर्थ-** हे देवी! नगरकोट में तुम्हीं रहती हो और तीनों लोक में तुम्हारे नाम का ही डंका बजता है।

शुम्भ निशुम्भ दानव तुम मारे।  
रक्तबीज शंखन संहारे॥

**अर्थ-** हे माता! आपने शुम्भ-निशुम्भ जैसे राक्षसों का संहार किया है और रक्तबीज जैसे वरदान प्राप्त राक्षस का भी नाश किया है, जिसके रक्त की एक बूंद गिरने पर सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाते थे। इतना ही नहीं, शंख नाम के राक्षस को भी आपने ही मारा है।

महिषासुर नृप अति अभिमानी  
जेहि अघ भार मही अकुलानी॥

रूप कराल कालिका धारा।  
सेन सहित तुम तिहि संहारा॥

**अर्थ-** जब दैत्यराज महिषासुर के पापों का घड़ा भर गया, तब उसके अभिमान को चूर-चूर करने और व्याकुल धरती के बोझ को हल्का करने के लिए, आप काली का विकराल रूप धारण कर आ थीं और महिषासुर का उसकी सेना सहित सर्वनाश कर दिया था।



परी गाढ़ सन्तन पर जब जब।  
भई सहाय मातु तुम तब तब ॥

अर्थ- हे माता! जब-जब आपके भक्तों पर मुसीबत आई है, तब-तब आप ही उनकी सहायता करने के लिए आई हैं।

अमरपुरी अरु बासव लोका।  
तव महिमा सब रहें अशोका ॥

अर्थ- हे माता! जब तक देवों की अमरपुरी और तीनों लोकों का अस्तित्व है, तब तक आपके भक्तों को कोई शोक नहीं घेर सकता है।

ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी।  
तुम्हें सदा पूजे नर नारी ॥

अर्थ- ज्वाला की ज्योति में भी तुम ही समाहित हो माता। तब ही तो ज्वालाजी में अनंत काल से ज्योति जलती चली आ रही है। इसलिए सभी नर-नारी आपकी पूजा करते हैं।

प्रेम भक्ति से जो यश गावे।  
दुख दारिद्र्य निकट नहीं आवे ॥

अर्थ- आपके गुणगान, जो भी भक्त प्रेम और श्रद्धा से गाता है, दुख एवं दरिद्रता उसके नजदीक नहीं आती है।

ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई।  
जन्म-मरण ताको छूटि जाई ॥

अर्थ- जो प्राणी मन से आपका ध्यान करता है, उसे जन्म-मरण के चक्र से आप निश्चित ही मुक्ति दे देती हैं।



शंकर आचारज तप कीनो ।  
काम अरु क्रोध जीति सब लीनो ॥  
निशिदिन ध्यान धरो शंकर को ।  
काहु काल नहिं सुमिरो तुमको ॥  
शक्ति रूप को मरम न पायो ।  
शक्ति गई तब मन पछतायो ॥  
शरणागत हुई कीर्ति बखानी ।  
जय जय जय जगदम्ब भवानी ॥

**अर्थ-** शंकराचार्य जी ने आचारज नाम का तप किया और इससे काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सभी पर उनको जीत हासिल हो गई। उन्होंने हर दिन भगवान शंकर का ध्यान किया मगर आपको स्मरण नहीं किया। वे यह बात समझ ही नहीं पाए कि आप ही आदि शक्ति हैं। जब उनकी शक्तियां छिन गई, तब मन ही मन उन्हें पछतावा हुआ और जब उन्हें आपकी शक्तियों का अहसास हुआ, तब वह आपकी शरण में आए और आपके भक्त बन बैठे।

भई प्रसन्न आदि जगदम्बा ।  
दई शक्ति नहिं कीन विलम्बा ॥  
मोको मातु कष्ट अति घेरो ।  
तुम बिन कौन हरे दुख मेरो ॥

**अर्थ-** हे देवी! आपने जिस तरह से शंकराचार्य जी से प्रसन्न होकर उनकी सभी शक्तियां उन्हें वापस लौटा दी थीं, वैसे ही मुझे भी ढेरों कष्टों ने घेर रखा है। इन कष्टों को केवल आप ही दूर कर सकती हैं। (दुर्गा चालीसा का पाठ करने के लाभ)



आशा तृष्णा निपट सतावें।  
मोह मदादिक सब विनशावें ॥  
शत्रु नाश कीजै महारानी।  
सुमिरौं इकचित तुम्हें भवानी ॥

**अर्थ-** हे माता! नई-नई आशाएं और ज्यादा से ज्यादा मिलने की प्यास मुझे सदैव सताती रहती है। मेरे अंदर क्रोध, मोह, अहंकार, काम और ईर्ष्या जैसे भाव भी हैं, जो हर घड़ी मुझे परेशान करते हैं। यह सभी मेरे शत्रु हैं। हे देवी! मैं आपका ध्यान करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप इन सभी शत्रुओं का नाश कर दें।

करो कृपा हे मातु दयाला।  
ऋद्धि सिद्धि दे करहु निहाला ॥  
जब लगि जिऊं दया फल पाऊं।  
तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं ॥

**अर्थ-** हे दया की देवी! मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ और मुझे ऋद्धि-सिद्धि प्रदान करके मेरे जीवन को सफल बना दो। हे माता! मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके ही गुणगान गाऊंगा, बस आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।

दुर्गा चालीसा जो नित गावै।  
सब सुख भोग परम पद पावै ॥  
देविदास शरण निज जानी।  
करहु कृपा जगदम्ब भवानी ॥

**अर्थ-** जो व्यक्ति नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, उसे हर सुख की प्राप्ति होती है और परम आनंद मिलता है। इसलिए हे माता रानी! हमें अपनी शरण में ले लीजिए और हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए।



## Related Articles



[Maa Mahagauri Aarti](#)



[Maa Kalratri Stotra](#)



# THANKS FOR READING



READ MORE RELIGIOUS  
CONTENT ON



[vedicprayers.com](https://vedicprayers.com)



Follow us on:

